


रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 101

K.M. 5

DepH. 31

C.F.B. 65
+ 100सं. 25],
No. 25]दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2000/माघ 22, 1921
DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2000/MAGHA 22, 1921[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 39
[N.C.T.D. No. 39

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2000

फा. सं. सचिव (10)/164/परि./98/625.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के संतुष्ट होने पर कि दिल्ली/नई दिल्ली सड़कों/क्षेत्र पर/भारी माल वाहन, मझोले माल वाहन तथा हल्के माल वाहनों के आने-जाने को विनियमित करने, जन-सुरक्षा के हित में और दिल्ली की आम जनता की सुविधा के लिए अति आवश्यक है, वह इसके द्वारा इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समय के दौरान वाहन की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित सड़कों पर तथा क्षेत्रों में भारी वाहन, मझोले वाहन तथा हल्के वाहन चलाने तथा खड़े रखने निष्प्रयोजन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के
उपराज्यपाल के आदेश से और
उनके नाम पर,

आलोक स्वरूप, उप-सचिव (परिवहन)

प्रथम परिशिष्ट


दिन भर चौबीस घंटे भारी माल वाहन तथा मझोले माल वाहन चलाने तथा निष्प्रयोजन खड़े रखने पर प्रतिबंध।

1. धौला कुआं के आसपास का क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग (सहित) विलिंगटन क्रेसेंट पार्क स्ट्रीट आर ए अपर रिज रोड तक शंकर रोड, मंदिर मार्ग, आउटर सर्किस कनाट प्लेस तक आर/ए पंचकुइया रोड तक बसंत रोड, आउटर, सर्किस, चेम्सफोर्ड रोड, अजमेरी गेट चौक तक, भवभूति मार्ग, मिन्टो रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, बहादुर शाहजफर मार्ग तक, मथुरा भैरो जी रोड की ओर रेलवे लाइन तक आर/ए निजामुद्दीन तक मथुरा रोड, आर/ए धौला कुआं तक रिग रेलवे लाइन।

A. Hestec

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

2. अर्जुन पथ
3. मोती बाग चौराहे तक शान्ति पथ
4. "आई" एवेन्यू सरोजिनी नगर
5. "बी" एवेन्यू सरोजिनी नगर
6. सफदर जंग फलाईओवर से अरविन्दो मार्ग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चौराहे तक
7. एण्ड्रूजगंज चौराहे तक भीष्म पितामह मार्ग
8. खेल गांव मार्ग
9. सीरी फोर्ट रोड
10. पश्चिम मार्ग बसंत या लिंक रोड बसंत इन्क्लेव
11. फिरोज गांधी मार्ग
12. वीर सावरकर मार्ग
13. शिव मंदिर मार्ग
14. बलबीर सक्सैना मार्ग
15. एसपलेण्ड रोड
16. मेला ग्राउण्ड से सीवड़ी ब्लाक के बीच नैरो स्ट्रीट चित्तरंजन पार्क तथा कालका जी के बीच मेन सड़क तक
17. न्यू फ्रेण्डस कालोनी, इस्कार्ट हार्ट संस्थान तथा रिंग रोड, मेन रोड फ्रेण्डस कालोनी
18. हौज खास आवासीय क्षेत्र, कालोनी तथा सड़क
19. शहीद मोहन दत्ता मार्ग
20. बसंत मार्ग
21. साइमन बालितर मार्ग
22. चर्च रोड (दिल्ली छावनी)
23. मोती बाग चौक से राव तुला राम मार्ग ओलाफ पाला में मार्ग टी पाइंट बसंत इन्क्लेव मार्केट पर पाइंट तक
24. नारायणा आवासीय क्षेत्र
25. समूचा जनकपुरी क्षेत्र
26. मोती नगर गणेश मार्केट रोड (तांगा स्टैण्ड से कर्मपुरा रोड तक)
27. सुभाष मार्ग लोधिघाना रोड
28. रणजीत सिंह मार्ग
29. सीताराम बाजार रोड
30. अंसारी रोड
31. मोट रोड
32. आर्य समाज रोड तथा बलराज खन्ना मार्ग
33. गुरुद्वारा रोड
34. अजमल खॉं रोड
35. गंगाराम अस्पताल रोड
36. आजाद मार्केट चौक से रास बिहारी मार्ग "वाई" प्वाइंट किशन गंज तक
37. डा. एच. एच. सी. सेन मार्टमेन चांदनी चौक रोड
38. टाउन हाल रोड
39. बल्लीमारान रोड
40. मटिया महल रोड
41. बाजार चितली कबर
42. खास रोड
43. हौज खास
44. इन्द्र प्रस्थ कालेज तक शामनाथ मार्ग


 Asstt. Commr. (Urban.)
 Deptt. of Urbanisation
 Civil Lines, Delhi-54

45. मोरी गेट रोड
46. राजपुर मार्ग
47. पूर्वीयान रोड
48. लखनऊ रोड
49. तीमार पुर रोड
50. समूचा दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र
51. सत्यवती मार्ग
52. राजनिवास मार्ग
53. कोर्ट रोड
54. कल्ब रोड (गुजराती समाज)
55. जोरावर सिंह मार्ग जी. पी. ओ. केलाघाट से पी. डी. उत्तर तक
56. यमुना मार्ग
57. मदरसा रोड
58. अण्डरहिल रोड
59. हैमिल्टन रोड
60. आई. पी. मार्ग
61. रोशन आरा रोड, घंटाघर चौक से राजपुर मार्ग चौराहे तक
62. मल्का गंज रोड
63. चर्च रोड
64. सरस्वती रोड
65. अब्दुल अजीज मार्ग
66. किशन दास मार्ग
67. अब्दुल रहमान मार्ग
68. शहीद राम प्रसाद बिसमिल मार्ग
69. श्री राम रोड
70. बर्फ खाना चौक से चौक घंटा घर तक जी. टी. रोड
71. पुलिस कालोनी, माडल टाउन, दिल्ली के गेट संख्या 2 तथा 3
72. बंगलो रोड
73. "टी" प्वाइंट बिरला मिल्लज जी. टी. रोड से करोड़ीमल कालेज तक मण्डोलिया रोड
74. सिंह सभा रोड
75. लक्ष्मी नगर टी प्वाइंट राष्ट्रीय राजमार्ग-24 तक मदर डेरी रोड
76. यमुना पुश्ता रोड
77. पुराना यमुना पुल रोड
78. लोधी रोड
79. रोशन आरा बाग के भीतर सड़क
80. इन्द्रचन्द्र शास्त्री मार्ग
81. कोल्हापुर रोड
82. भार्गव लेन (क्वीन मैरी लेन)
83. सेंट स्टीफन अस्पताल रोड
84. नेल्सन मण्डेला रोड
85. कड़कड़डूमा चौक तक विकास मार्ग
86. चाँदनी चौक क्षेत्र
87. चर्च मिशन रोड
88. समूची नरवाणा रोड (पूर्वी दिल्ली)
89. भैरों रोड
90. मैगजीन रोड

द्वितीय परिशिष्ट
7.30 बजे से 9.30 बजे रात तक सड़कों पर भारी माल वाहनों तथा मध्यम माल वाहनों के चलने तथा व्यर्थ में खड़े करने पर प्रतिबंध।
1. पूरे रिंग रोड से घिरा हुआ क्षेत्र (मिलाकर) तथा इस क्षेत्र की अन्य सभी सड़कें जिसमें 24 घंटे का प्रतिबंध तथा अन्य प्रतिबंध अधिरचित किये गये हैं।
2. आवासीय कालोनियों/रिंग रोड और रिंग रोड से बाहर से घिरे हुये क्षेत्र में जो चौड़ाई में 7 मीटर से कम हों समस्त अंतरिक्ष सड़कों

Attested

Asstt. Comm. (Adm.)
Dept. of Education
Civil Lines, Delhi-54

3. आर-ब्लाक, ग्रेटर कैलाश-1 रोड संबद्ध बाहरी रिंग रोड (हो-चि-मिन्ह मार्ग)
4. हंस राज गुप्ता मार्ग
5. प्रिसेस रोड
6. मिलन सिनेमा रोड
7. विशाल इन्कलेव रोड
8. रघुबीर नगर रोड
9. वेस्ट एवेन्यू रोड (पंजाबी बाग)
10. नार्थ वेस्ट एवेन्यू रोड (पंजाबी बाग)
11. रोड नं. 43, 29 तथा 30 पंजाबी बाग रोड
12. शिवाजी पार्क रोड (पंजाबी बाग) आवासीय क्षेत्र सहित
13. बुन्देला गांव सड़क बीच नजफगढ़ सड़क और बाहरी सड़क
14. करियप्पा मार्ग
15. थिमय्या सड़क से आर/ए एयर फोर्स सड़क से मिलिट्री हस्पताल
16. सदर बाजार (दिल्ली छावनी)
17. विवेकानंद व वेंकटेश्वर सड़क आर. के. पुरम
18. अरविंदो सड़क से आल इंडिया संस्थान क्रासिंग से बाहरी रोड
19. पश्चिमी सड़क—पूर्वी मार्ग बसन्त मार्ग
20. बसन्त मार्ग (बसन्त विहार)
21. प्रीतप पुरा मार्ग से बाहरी रिंग रोड
22. लानी सड़क से जी टी सड़क 100 फुट सड़क एक्स विंग
23. सड़क नं. 54
24. क्लब सड़क पंजाबी बाग
25. रानी बाग सड़क
26. मुनिरका मार्ग बसन्त बिहार
27. चौ. हरसुख मार्ग
28. मुख्य ब्रह्मपुरी सड़क से गंदा नाला ब्रह्मपुरी से घोण्डा चौक
29. चौ. छन्दु सिंह मार्ग
30. निजामुद्दीन पुल
31. एन. एच.-24 से नौएडा टी-पाइन्ट
32. अफ्रीका एवेन्यू
33. मथुरा रोड से आर/ए निजामुद्दीन से आश्रम चौक
34. मुख्य सरोजनी नगर सड़क (ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग) पाटेल से बाहरी रेलवे ल
35. लाला लाजपत राय मार्ग (बाहरी रिंग रोड)
36. मार्शल टीटो मार्ग
37. बेवनीटू जुरजे मार्ग
38. अफ्रीका एवेन्यू सड़क से बाहरी रेलवे लाइन से बाहरी रिंग सड़क चौराहा
39. तमिल संगम मार्ग
40. संगम मार्ग
41. नौरोजी नगर सड़क
42. कालका देवी मार्ग
43. मौलाना मोहम्मद अली मार्ग
44. मेजर सुदेश मार्ग
45. महारानी मार्ग सड़क
46. ब्रिगेडियर एस. के. मल्होत्रा मार्ग
47. आजादपुर रोड
48. बंदा बहादुर मार्ग
49. भाई परमानंद मार्ग
50. माल रोड

Attested

Asst. Secy. (Admin.)
Dept. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

51. प्रीतम पुरा सड़क
52. सड़क नं. 3
53. राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग सुबह 5.30 से 10.30 रात
54. निकल्सन रोड, कश्मीरी गेट

तृतीय परिशिष्ट

प्रातः 7.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तथा सायं 5.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक भीड़-भाड़ के समय भारी माल वाहन तथा मझोले माल वाहन चलाने तथा निष्प्रयोजन खड़े रखने पर प्रतिबन्ध

1. रोड संख्या-56
2. रोड संख्या-57
3. 100 फुटा रोड
4. जी. टी. रोड (पूर्वी दिल्ली)
5. भजनपुरा चौराहा से करावल नगर को जाने वाली सड़क के सामने आवासीय क्षेत्र
6. शहीद जी सिंह संसवाल मार्ग
7. वजीरपुर रोड से यमुना विहार रोड तक
8. घौण्डा रोड से बृजपुरी रोड तक वजीराबाद रोड
9. करावल नगर को वजीराबाद रोड
10. राव तुला राम मार्ग-गुडगांव रोड चौराहे से कालका जी मंदिर तक आउटर रिंग रोड
11. पंचशील पार्क मार्ग
12. कैप्टन गौड मार्ग
13. नजफगढ़ रोड राजा गार्डन चौक से विकासपुरी आउटर रिंग रोड जिला केन्द्र विकासपुरी तक राजागार्डन चौक रजौकरी चौराहे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8
14. रजौकरी चौराहे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8
15. गुडगांव रोड
16. जेल रोड
17. पंखा रोड
18. धौला कुंआ के आसपास रिंग रोड से (रिंग रोड-अपर ब्रिज रोड-सरदार पटेल मार्ग गुडगांव रोड) पंजाबी बाग चौराहे तक (रिंग रोड-न्यू रोहतक रोड चौराहा) तथा आश्रम चौक (रिंग रोड मथुरा रोड चौराहा) निजामुद्दीन पुल तक (रिंग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा)।
19. पीरागड़ी चौक से पंजाबी बाग चौक तक रोहतक रोड
20. जी. टी. रोड से रिंग रोड तक नया अन्तर्राज्यीय बस अड्डा
21. कञ्जावाला गाँव तथा आउटर रिंग रोड के बीच कुतुबगढ़ रोड
22. बी. ब्लाक रोड मंगोलपुरी
23. कला मंदिर रोड, मंगोलपुरी
24. सैक्टर 4/5, रोहिणी तक कुतुबगढ़ रोड अवन्तिका चौक रोड
25. समूचा रोहिणी क्षेत्र (कंझावाला चौक से आउटर रिंग रोड कुतुबगढ़ रोड तक)
26. पूर्व की ओर पुराना यमुना पुल वाई प्वाइंट धर्मपुरा तक जीटी रोड
27. पालम फाटक से डाबरी लाइट प्वाइंट तक पंखा रोड
28. मायापुरी रोड
29. गाजीपुर चौराहे से "टी" प्वाइंट नौएडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग

चतुर्थ परिशिष्ट

प्रातः 8 बजे से 11.00 बजे तथा सायं 5.00 बजे से 9.00 बजे तक व्यस्त समय के दौरान हल्के माल वाहनों के सड़क पर चलने तथा व्यर्थ में खड़े रहने पर प्रतिबन्ध

1. रिंग रोड (नारायणा रोड पायल मार्ग) को छोड़कर, रिंग रोड चौराहे से रिंग रोड मायापुरी चौराहा
2. रोशनदरा सड़क से रानी झांसी रोड चौराहा से घन्टा घर मार्ग

Attested

Ass. Secy. (In-charge)
Dept. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

3. रानी झांसी सड़क
4. रोहतक रोड से रानी झांसी सड़क चौराहा से जनरल स्टोर पंजाबी बाग
5. फैज रोड
6. देश बंधु गुप्ता रोड
7. उपरी रिंग सड़क
8. पूसा रोड
9. मिलिट्री सड़क
10. पटेल रोड से रिंग रोड (नई मोती नगर)
11. नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन से जखीरा पुल)
12. आई पी मार्ग
13. टोडा पुर मार्ग
14. सदर बाजार रोड (दिल्ली छावनी)
15. थिमथ्या मार्ग/परेड रोड
16. चर्च रोड (दिल्ली छावनी)
17. मिलन सिनेमा रोड (कर्मपुरा)
18. राव तुला मार्ग से मोती बाग, मोती बाग चौक से 0101 पालम मार्ग
19. अफ्रीका एवेन्यू आर/ए ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग से 01 ए एफ पालम मार्ग
20. अरविंदो मार्ग से आई आई टी सफदर जंग पुल
21. भीष्म पितामाह मार्ग से बाहरी रेलवे लाइन से एन्ड्रयूज गंज रोड
22. ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग
23. खेल गांव मार्ग
24. श्री फोर्ट रोड
25. लाला लाजपत राय मार्ग और जोसफ ब्रीज टीटो मार्ग से चिराग दिल्ली चौराहा
26. एन एच 24
27. नोएडा लिंक रोड
28. मदर डेयरी रोड (आर ओ बी-36)
29. 100 फुटा रोड
30. जवाहर लाल नेहरू मार्ग
31. आसफ अली रोड
32. अंसारी रोड
33. घंटा घर मस्जिद रोड
34. न्यू दरिया गंज रोड
35. मौत रोड
36. श्रदानन्द मार्ग
37. कुतुब रोड
38. ईदगाह रोड
39. सदर बाजार रोड
40. बहादुर गढ़ रोड
41. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड
42. डा. एच सी सेन रोड
43. चर्च मिशन रोड
44. नया बाजार रोड
45. सदर पुल रोड
46. खारी बावली

Attested 

Asst. Secy.
Dept. of Civil Lines
Civil Lines, Delhi-54

47. आजाद मार्किट रोड
 48. जौहर सिंह मार्ग
 49. बोलेवर्द मार्ग
 50. राजपुर रोड
 51. चौब्रोजा रोड
 52. जी. टी. बी. मार्ग
 53. बहमा शाह मार्ग
 54. माडल टाउन क्षेत्र रोड
 55. गुजरावाला टाउन क्षेत्र रोड
 56. परमानन्द रोड
 57. बन्दा बहादुर मार्ग
 58. परोबिन मार्ग
 59. लखनऊ रोड
 60. तीमारपुर रोड
 61. बलराज खन्ना मार्ग (पटेल नगर)
 62. कलब रोड (पंजाबी बाग)
 63. पश्चिम एवेन्यू मार्ग (पंजाबी बाग)
 64. उत्तर पश्चिम एवेन्यू रोड
 65. रोड नं. 30 और 29 पश्चिम विहार
 66. मैजर सुदेश मार्ग (राजा गार्डन) (बाहरी रोड से नजफगढ़ रोड)
 67. बुन्देला गांव रोड (नजफगढ़ से बाहरी रिंग रोड)
 68. मोती नगर गणेश मार्किट रोड (टांगा स्टेण्ड से कर्मपुरा रोड)
 69. घोण्डा रोड से वजीराबाद रोड से यमुना विहार रोड
 70. वजीराबाद रोड से बृजपुरी रोड
 71. वजीराबाद रोड से करावल नगर
 72. लिंक रोड राजेन्द्र नगर (ऊपरी रिंग रोड से ताज पुर रोड)
 73. गोखले रोड
 74. गोएन्का रोड काली सड़क से गुलाबी रोड जासन
 75. इन्दर चन्द्र शास्त्री मार्ग
 76. गुरू राम दास मार्ग
 77. एन डी एस ई रोड 1 और 2 (एक तरफ लेन)
 78. आल इनटरनल रोड में रिहायशी कालोनियां
 79. धौला कुंआ, सरदार पटेल मार्ग, विल्डिंग क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड, आर/ ए अपर रिज रोड तक, मंदिर मार्ग, पंचकुईयां रोड, लिंक रोड तक, आर/ए पंचकुईयां रोड बाहरी सर्कस कनाट प्लेस, बसंत रोड, बाहरी सर्कस चैम्पसोर्ड रोड, भवभूति मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग से चौक अजमेरी गेट, मिन्टो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, रेलवे लाइन, मथुरा रोड से भैरों जी रेलवे ब्रिज, भैरों जी रोड मथुरा रोड, मथुरा रोड से आश्रम चौक, रिंग रेलवे लाइन, मथुरा रोड से आर/ए धौला कुंआ तक घिरा हुआ क्षेत्र
 80. सारा जनकपुरी क्षेत्र
 81. आर्य समाज रोड
 82. टैक रोड
 83. सुभाष मार्ग
 84. लोथिएन मार्ग
 85. शामनाथ मार्ग

Attested
 (31/10)
 Asstt. Com. (Genl.)
 Deptt. of Publication
 Civil Lines, Delhi-64

86. कोर्ट रोड
87. निकलसन रोड कश्मीरी गेट
88. अजमल खान रोड
89. गुरुद्वारा रोड
90. रवि दास मार्ग
91. गंगाराम अस्पताल मार्ग
92. सारा दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र
93. रोशन आरा रोड से घंटा घर चौक से मल्का गंज चौक
94. जी. टी. रोड से यमुना बाजार चौक से वाई पाईट धर्मपुरा
95. नई सड़क, लाल कुआं, बाजार रोड, अजमेरी गेट रोड, सीता राम बाजार रोड
96. फौरोज गांधी मार्ग
97. वीर सेवारकर मार्ग
98. चांदनी चौक रोड
99. माल रोड से वाई पाइन्ट आजादपुर से चन्दगी राम अखाड़ा
100. मल्का गंज रोड
101. रोशन आरा रोड से घंटा घर चौक से राजपुर रोड चौराहा
102. अर्जुन पथ
103. सपलेन्दे रोड
104. सत्यावती मार्ग
105. बंगलो रोड
106. मनडोला रोड से टी पाइन्ट जी. टी. रोड बिरला मिल्स से करोड़ी मल कालेज
107. सिंह सहान रोड
108. सिमोन बोली बर मार्ग
109. मदरसा रोड
110. जी. टी. रोड से घंटा घर चौक बर्फखाना
111. शान्तिपथ से मोती बाग चौक
112. आई टी ओपुल (विकास मार्ग से करकड़ी मोड़)
113. निजामुद्दीन पुल
114. ब्रिगेडियर एस. के. मल्होत्रा मार्ग
115. राम प्रसाद बिसमिल मार्ग
116. आजादपुर मार्ग
117. माल रोड
118. तमिल संगम मार्ग
119. प्रीतम पुरा रोड
120. रोड नं. 3
121. मैगजिन रोड

निम्नलिखित चौराहों/मार्गों पर क्रासिंग की अनुमति है :—

1. सड़क नं. 57 विकास मार्ग चौराहा (करकड़ी मोड़)
2. पटपड़ गंज रोड विकास मार्ग, चौराहा (शकरपुर चौराहा)
3. राष्ट्रीय राजमार्ग — गाजीपुर रोड, चौराहा
4. सड़क संख्या 58— गाजीपुर चौराहा

उपरोक्त सभी सड़कों/क्षेत्रों में रविवार और राजपत्रित अवकाश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
24 घंटे

1. पश्चिमी मार्ग, बसन्त विहार तथा लिंक रोड बसन्त इन्कलेव
प्रातः 7.30 से सायं 9.30 तक
1. सुशीला मोहन मार्ग, तिलक बाजार, गली पटेवाली व साथ वाली गलियां
2. चौधरी झन्डु सिंह मार्ग.

Attested
12/1/10

**TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 11th February, 2000

F. No. Secc. 10(164)Tpt/98/625.—In exercise of the powers conferred by section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public of Delhi to regulate movement of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on Delhi/New Delhi roads/area, do hereby, prohibits the plying and idle parking of heavy goods, medium goods & light goods vehicles on the roads and areas against each category of vehicle during specified timings as enlisted in the schedule annexed hereto.

By Order and in the name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.
ALOK SWAROOP, Dy. Secy. (Transport)

ANNEXURE—1

**PROHIBITION ON THE PLYING AND IDLE PARKING OF HEAVY GOODS VEHICLES AND MEDIUM
GOODS VEHICLES THROUGHOUT THE 24 HOURS THE DAY**

- 1 Area bounded by round-about Dhaula Kuan, Sardar Patel Marg, (inclusive) Willingdon Crescent, Park Street, Shankar Road upto R/A Upper Ridge Road, Mandir Marg, Panchkuian Road upto Link Road, R/A Panchkuian Road upto Outer Circus Cannought Place, Basant Road, Outer Circus, Chemsford Road, Bhavbhuti Marg upto Chowk Ajmeri Gate, Minto Road, Diq Dayal Upadhyaye Marg, upto Bahadur Shah Zafar Marg, Railway Line towards Mathura, Baironji Road, Mathura Road, upto R/A Nizamuddin, Ring Railway Line upto R/A Dhaula Kuan.
- 2 Arjun Path.
- 3 Shanti path upto Moti Bagh Crossing.
- 4 I-Avenue, Sarojini Nagar.
- 5 B-Avenue, Sarojini Nagar.
- 6 Aurobindo Marg from Safdarjung Flyover upto All India Institute Crossing.
- 7 Bhisham Pitamah Marg upto Andrews Ganj Crossing.
- 8 Khel Gaon Marg.
- 9 Siri Fort Road.
- 10 Paschim Marg Vasant & Link Road Vasant Enclave.
- 11 Firoz Gandhi Marg.
- 12 Veer Savarkar Marg.
- 13 Shiv Mandhir Marg.
- 14 Balbir Saxena Marg.
- 15 Esplande Road.
- 16 Narrow Street Between C & D Block from Mela Ground to the main road Between Chitranganj Park and Kalkaji.
- 17 New Friends Colony, Escorts Heart Institute and Ring Road main road Friends Colony.
- 18 Hauz Khas residential areas, Colony, and market.
- 19 Shaheed Mohan Dutta Marg.
- 20 Basant Marg.
- 21 Simon Boliver Marg.
- 22 Church Road (Delhi Cantt.).
- 23 Rao Tula Ram Marg from Chowk Moti Bagh upto Olaf Palame Marg 'T' point at Vasant Enclave Market.
- 24 Naraina Residential Area.
- 25 Entire area of Janakpuri.
- 26 Moti Nagar Ganesh Market Road (From Tanga Stand upto Karampura Road)
- 27 Subhash Marg, Lothian Road.
- 28 Ranjit Singh Marg.
- 29 Sita Ram Bazar Road.

11/02/2000

Attested
Assd. Com. (Admin.)
Dept. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

- 30 Ansari Road.
- 31 Mot Road.
- 32 Arya Samaj Road and Balraj Khanna Marg.
- 33 Gurudwara Road.
- 34 Ajmal Khan Road.
- 35 Ganga Ram Hospital Road.
- 36 Ras Bihari Marg From Chowk Azad Market upto 'Y' point Kishan Ganj.
- 37 Dr H C. Sen Mart. main Chandni Chowk Road.
- 38 Town Hall Road.
- 39 Ballimaran Road.
- 40 Matia Mahal Road.
- 41 Bazar Chitli Qabar.
- 42 Khas Road.
- 43 Hauz Qazi.
- 44 Sham Nath Marg upto I.P. College.
- 45 Mori Gate Road.
- 46 Rajpur Road.
- 47 Probhlyne Road.
- 48 Lucknow Road.
- 49 Timarpur Road.
- 50 Entire Delhi University Area.
- 51 Satyawati Marg.
- 52 Raj Niwas Marg.
- 53 Court Road.
- 54 Club Road (Gujarati Samaj)
- 55 Jorawar Singh Marg upto P.D. North from G.P.O. Kela Ghat.
- 56 Yamuna Marg.
- 57 Madarsa Road.
- 58 Under Hill Road.
- 59 Hamilton Road.
- 60 I.P. Marg.
- 61 Roshnara Road from Chowk Ghanta Ghar to Rajpur Road Crossing.
- 62 Malka Ganj Road.
- 63 Church Road.
- 64 Saraswati Road.
- 65 Abdul Aziz Marg.
- 66 Kishan Das Marg.
- 67 Abdul Rehman Marg.
- 68 Shaheed Ram Prasad Bismil Marg.
- 69 Shri Ram Road.
- 70 G T. Road from Chowk Baraf Khana to Chowk Ghanta Ghar.
- 71 Gate No. 2 & 3 of Police Colony Model Town, Delhi.
- 72 Banglow Road.
- 73 Mandolia Road from 'T' point Birla Mills G.T. Road to K.M. College.
- 74 Singh Sabha Road.
- 75 Mother Dairy Road from Laxmi Nagar 'T' point upto NH-24.
- 76 Yamuna Pushta Road.
- 77 Old Yamuna Bridge Road.
- 78 Lodhi Road.
- 79 Road inside Roshanara Bagh.
- 80 Inder Chandra Shastri Marg.
- 81 Kolha Pur Road.

Attested Asstt. Commr. (31/5/15)
 Deptt. of Publication
 Civil Lines, Delhi-54

- 82 Bhargawa Lane (Queen's Marry Lane).
 83 St. Stephen Hospital Road.
 84 Nelson Mandela Road.
 85 Vikas Marg upto Karkardoma Chowk.
 86 Area of Chandni Chowk.
 87 Church Mission Road.
 88 Entire Narwana Road (East Delhi).
 89 Bharoin Road.
 90 Magazine Road.

ANNEXURE—2

PROHIBITION ON THE PLYING AND IDLE PARKING OF HEAVY GOODS VEHICLES AND MEDIUM GOODS VEHICLES ON ROAD BETWEEN 7.30 AM TO 9.30 P.M.

- 1 Area bounded by Entire Ring Road (inclusive) and all other roads this area on which 24 hours ban or other ban have been notified.
- 2 All internal roads in residential colonies/areas within area bounded by Ring Road & Outside Ring Road which are less than 7 metre width.
- 3 R-Block Greater Kailash-I Road linking Outer Ring Road (Ho-Chi-Minh Marg)
- 4 Hansraj Gupta Marg.
- 5 Princess Road.
- 6 Milan Cinema Road.
- 7 Vishal Enclave Road.
- 8 Raghbir Nagar Road.
- 9 West Avenue Road (Punjabi Bagh).
- 10 North-West Avenue Road (Punjabi Bagh).
- 11 Road No. 43, 29 & 30 Punjabi Bagh Road.
- 12 Shivaji Park Road (Punjabi Bagh) including Residential Area.
- 13 Budhela Village Road between Najafgarh Road and Outer Ring Road.
- 14 Kariappa Marg.
- 15 Thimayya Marg from R/A Air Force Road to Military Hospital.
- 16 Sadar Bazar Road (Delhi Cantt.).
- 17 Vivckanand & Venkateshwar Marg, R.K. Puram.
- 18 Aurbindo Marg from All India Institute Crossing upto Outer Ring Road.
- 19 Paschimi Marg-Poorvi Marg Vasant Vihar.
- 20 Vasant Marg (Vasant Vihar).
- 21 Pitampura Road from Ring Road to Outer Ring Road.
- 22 Loni Road from G.T. Road upto 100 Foota Road X-ing.
- 23 Road No. 54.
- 24 Club Road Punjabi Bagh.
- 25 Rani Bagh Road.
- 26 Munirka Marg Vasant Vihar.
- 27 Ch. Harsukh Marg.
- 28 Main Brahmपुरi Road from Ganda Nallah Brahmपुरi to Ghonda Chowk.
- 29 Ch. Jhandu Singh Marg.
- 30 Nizzamuddin Bridge.
- 31 NH-24 Upto Noida 'T' Point.
- 32 Africa Avenuc.
- 33 Mathura Road from R/A Nizammuddin upto Ashram Chowk.
- 34 Main Sarojini Nagar Road (Brig. Hoshiar Singh Marg) parallel to a Ring Railway Line

Attested

A/S
13/1/13

Chief Engineer (Admin.)
 Dept. of Locomotion
 Rail Lines, Delhi-54

- 35 Lala Lajpat Rai Marg (Outside Ring Road)
- 36 Marshal Tito Marg
- 37 Bawnito Juroze Marg.
- 38 Africa Avenue Road from Ring Railway Line upto Outer Ring Road Crossing.
- 39 Tamil Sangam Marg.
- 40 Sangam Marg
- 41 Naroji Nagar Road.
- 42 Kalka Devi Marg
- 43 Maulana Mohd. Ali Marg.
- 44 Major Sudesh Marg.
- 45 Mahrani Bagh Road.
- 46 Brgd. S K. Malhotra Marg.
- 47 Azad Pur Road.
- 48 Banda Bahadur Marg.
- 49 Bhai Parmanand Marg.
- 50 Mall Road.
- 51 Pitam Pura Road.
- 52 Road No. 3.
- 53 Ram Prasad Bismel Marg.
From 5.30 AM to 10.30 PM.
- 54 Nicholson Road, Kashmere Gate.

ANNEXURE—3

PROHIBITION ON THE PLYING AND IDLE PARKING OF HEAVY GOODS VEHICLES AND MEDIUM GOODS VEHICLES DURING PEAK HOURS FROM 7.30 AM TO 11.00 AM TO-AND 5.00 PM TO 9.30 P.M.

- 1 Road No. 56
- 2 Road No. 57.
- 3 100 Foota Road.
- 4 G.T Road (East Delhi).
- 5 Residential Area on the Road Leading from Bhajanpura Crossing to Karawal Nagar.
- 6 Sahacedji Singh Sanswal Marg.
- 7 Ghonda Road from Wazirabad Road to Yamuna Vihar Road.
- 8 Wazirabad Road to Brijpuri Road.
- 9 Wazirabad Road to Karawal Nagar.
- 10 Outer Ring Road from Rao Tula Ram Marg—Gurgaon Road Crossing to Kalkaji Mandir.
- 11 Panchasheel Park Marg.
- 12 Capt. Gaur Marg.
- 13 Nazafgarh Road from Raja Garden Chowk upto Vikaspuri Outer Ring Road (Distt. Centre Vikaspuri).
- 14 NH-8 upto Rajokri Crossing.
- 15 Gurgaon Road.
- 16 Jail Road.
- 17 Pankha Road.
- 18 Ring Road from Round about Dhaula Kuan (Ring Road-Upper Ridge Road-Sardar Patel Marg-Gurgaon Road) to Punjabi Bagh Crossing (Ring Road-New Rohtak Road Crossing) and from Ashram Chowk (Ring Road-Mathura Road Crossing) upto Nizamuddin Bridge (Ring Road-NH-24 Crossing).
- 19 Rohtak Road from Peera Garhi Chowk to Punjabi Bagh Chowk.
- 20 New ISBT Flyover Road from G.T. Road upto Ring Road.
- 21 Qutab Garh Road between Kanjhawala Village and Outer Ring Road.
- 22 B-Block Road, Mangolpuri.

Attested
 23/5/12
 Asstt. Controller (Genl.)
 Deptt. of Publication
 Civil Lines, Delhi-54

- 23 Kala Mandir Road, Mangol Puri.
- 24 Avantika Chowk Road from Qutab Garh Road upto Section 4/5 Rohini.
- 25 Entire Rohini area (From Kanjhawala Chowk to Outer Ring Road Qutabgarh Road).
- 26 G.T. Road from East side Old Yamuna Bridge upto 'Y' point Dharampura.
- 27 Palam Patak to Dabri Light Point-Pankha Road.
- 28 Mayapuri Road.
- 29 NH-24 from Gazipur Crossing to Noida 'T' Point.

ANNEXURE—4

PROHIBITION ON THE PLYING AND IDLE PARKING OF LIGHT GOODS VEHICLES DURING PEAK HOURS FROM 8.00 AM TO 11.00 AM AND 5.00 PM TO 9.00 P.M.

- 1 Entire Ring Road (except Ring Road from Naraina Road (Payal Marg) Ring Road Crossing to Ring Road-Mayapuri Crossing).
- 2 Roshandara Road from Rani Jhansi Marg upto Chowk Ghanta Ghar.
- 3 Rani Jhansi Road.
- 4 Rohtak Road from Rani Jhansi Road crossing upto General Store Punjabi Bagh.
- 5 Faiz Road.
- 6 Dosh Bandhu Gupta Road.
- 7 Upper Ridge Road.
- 8 Pusa Road.
- 9 Military Road.
- 10 Patel Road upto Ring Road (New Moti Nagar)
- 11 Najafgarh Road (from Raja Garden Chowk to Zakhira Flyover)
- 12 I.P. Marg
- 13 Toda Pur Road.
- 14 Sadar Bazar Road (Delhi Cantt.)
- 15 Thimmayya Marg/Parade Road.
- 16 Church Road (Delhi Cantt.)
- 17 Milan Cinema Road (Karampura)
- 18 Rao Tula Marg from Moti Bagh Chowk to Olaf Palam Marg.
- 19 Africa Avenue R/A Brigadier Hoshiar Singh Marg to Olaf Palam Marg.
- 20 Aurbindo Marg from III Safdarjang Flyover.
- 21 Brig. Hoshiar Singh Marg.
- 22 Bisham Pitamah Marg from Ring Railway Line upto Andrews Ganj Road.
- 23 Khel Gaon Marg.
- 24 Siri Fort Road.
- 25 Lala Lajpat Rai Marg and Joseph-bronz Tito Marg upto Chirag Delhi Chowk.
- 26 N.H. 24.
- 27 Noida Link Road.
- 28 Mother Dairy Road (ROB-36).
- 29 100 Foota Road
- 30 Jawahar Lal Nehru Marg.
- 31 Asaf Ali Road.
- 32 Ansari Road.
- 33 Ghata Masjid Road.
- 34 New Darya Ganj Road.
- 35 Moat Road.
- 36 Shardhanand Marg.
- 37 Qutab Road.

Attested *AS* 13/1/13
 Asst. Controller (Admn.)
 Deptt. of Publication
 Civil Lines, Delhi-54

- 38 Idgah Road
- 39 Sadar Bazar Road
- 40 Bhadur Garh Road
- 41 Shyama Prasad Mukherji Marg
- 42 Dr. H. C. Sen Road
- 43 Church Mission Road
- 44 Naya Bazar Road
- 45 Sadar Pul Road
- 46 Khari Baoli
- 47 Azad Market Road
- 48 Jauhar Singh Marg.
- 49 Boulevard Marg.
- 50 Rajpur Road
- 51 Chaubourja Road.
- 52 G T B Marg.
- 53 Bhama Shah Marg.
- 54 Model Town Area Road.
- 55 Gujrawala Town Area Road.
- 56 Parmanand Marg.
- 57 Banda Bahadur Marg.
- 58 Probh Marg.
- 59 Lucknow Road
- 60 Timarpur Road.
- 61 Balraj Khann Marg (Patel Nagar)
- 62 Club Road (Punjabi Bagh)
- 63 West Avenue Road (Punjabi Bagh)
- 64 North West Avenue Road (Punjabi Bagh)
- 65 Road Nos. 30 & 29 Paschim Vihar.
- 66 Major Sudesh Marg (Raja Garden) (Ring Road to Najafgarh Road)
- 67 Buddela Village Road (Najafgarh Road to Outer Ring Road).
- 68 Moti Nagar Ganesh Market Road (from Tanga Stand upto Karam Pura Road).
- 69 Bhonda Road from Wazirabad Road to Yamuna Vihar Road.
- 70 Wazirabad Road to Brijpuri Road.
- 71 Wazirabad Road to Karawal Nagar.
- 72 Link Road Rajinder Nagar (Upper Ridge Road to Todapur Road)
- 73 Gokhle Road.
- 74 Goenka Road, Kali Sarak upto Gulabi Road Junction.
- 75 Inder Chander Shashtri Marg.
- 76 Guru Ram Dass Marg.
- 77 NDSE Roads I & II (One Way lane)
- 78 All internal roads in residential colonies which are less Than 7 meters in width.
- 79 Area Bounded by Round About *Dhaura Kuan, Sardar Patel Marg, inclusive Willingdon Crescent, Park Street, Shankar Road, upto R/A upper Ridge Road, Mandir Marg, Panchkuian Road upto Link Road R/A Panchkuian Road upto Outer Circus Connaught Place, Basant Road Outer Circus Chelmsford Road, Bhavbhuti Marg Bhadur Shah Zafar Marg upto Chowk Ajmeri Gate, Minto Road, Din Dayal Upadhyaye Marg, Railway Line towards Mathura Road upto Bhairoji Railway Bridge Bhairoji Road, Mathura Road, Mathura Road upto Ashram Chowk, Ring Railway Line from Mathura Road upto R/A Dhaura Kuan.
- 80 Entire area of Janakpuri.
- 81 Arya Samaj Road.
- 82 Tank Road.
- 83 Subhash Marg.
- 84 Lothian Road.
- 85 Shan Nath Marg.

Attested

12/1/15
 Asst. Secy. (Admin.)
 Dept. of Publication
 Civil Lines, Delhi-54

- 86 Court Road.
 87 Nicholson Road, Kashmere Gate.
 88 Ajmal Khan Road.
 89 Gurdwara Road.
 90 Ravi Dass Marg.
 91 Ganga Ram Hospital Road.
 92 Entire Delhi University Area.
 93 Roshandara Road from Chowk Ganta Ghar to Chowk Malka Ganj.
 94 G.T. Road from Chowk Yamuna Bazar upto 'Y' point, Dharampura.
 95 Nai Sarak, Lal Kuan, Bazar Road, Ajmeri Gate Road, Sita Ram Bazar Road.
 96 Feroz Gandhi Marg.
 97 Veer Sevakar Marg.
 98 Chandi Chowk Road.
 99 Mall Road from 'Y' Point Azadpur to Chandgi Ram Akhara.
 100 Malka Ganj Road.
 101 Roshandara Road from Chowk Ghanta Ghar to Raj Pur Road Crossing.
 102 Arjun Path.
 103 Esplanade Road.
 104 Satyawati Marg.
 105 Bungalow Road.
 106 Mandolla Road from 'T' point G.T. Road Birla Mills to K.M. College.
 107 Singh Sabha Road.
 108 Simon Boulivar Marg.
 109 Madarsa Road.
 110 G.T. Road from Ghantra Ghar to Chowk Baraf Khana.
 111 Shanti Path upto Moti Bagh Chowk.
 112 I.T.O. Bridge (Vikas Marg upto Karkari More).
 113 Nizammudin Bridge.
 114 Brig. S.K. Malhotra Marg.
 115 Ram Prasad Bismal Marg.
 116 Azad Pur Road.
 117 Mall Road.
 118 Tamil Sangam Marg.
 119 Pritam Pura Road.
 120 Road No. 3
 121 Magazine Road.

* Crossings at following junctions/points would be allowed :—

- 1 Road.No. 57 Vikas Marg Junction (Karkari More).
- 2 Patpar Ganj Road—Vikas Marg Junction (Shakarpur Crossing)
- 3 NH-24-Gazipur Road Crossing.
- 4 Road No. 58—Gazipur Crossing.

* On all above-mentioned roads/areas no restriction would be applicable for Sunday and Gazzetted Holidays.

24 HOURS

- 1 Paschimi Marg Vasant Vihar & Link Road Vasant Enclave.

7.30 am to 9.30 pm

- 1 Sushila Mohan Marg, Tilak Bazar, Gali Pattewali and Adjoining Streets.
- 2 Ch. Jhandu Singh Marg.

Attested

Asstt. Controller (Admn.)
 Deptt. of Publication
 Civil Lines, Delhi-54